



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 3—अक्टूबर 9, 2015 (आश्विन 11, 1937)

No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 3—OCTOBER 9, 2015 (ASVINA 11, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	897	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	919	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	9	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2593	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 1285
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 407
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 923
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	897	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	919	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	9	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2593	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1285
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	407
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	923
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministriess of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I — खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 अगस्त 2015

सं. एफ-10-1/2015-यू3(ए)—जबकि केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, की सलाह पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को सम-विश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने का अधिकार प्राप्त है।

2. और जबकि, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर इस मंत्रालय की दिनांक 13.08.2007 की अधिसूचना सं. एफ. 9-37/2006-यू3(ए) के माध्यम से उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्ध संस्थान, (जीआईटीएएम) रुशीकोण्डा, विशाखापट्टनम-530045, आन्ध्र प्रदेश को 'सम-विश्वविद्यालय संस्थान' के रूप में घोषित किया गया था, जिसमें प्रारंभ में दो कॉलेज नामतः (i) इंजीनियरिंग कॉलेज एवं (ii) विज्ञान कॉलेज थे। इसके बाद, दिनांक 13.06.2008 की अधिसूचना संख्या एफ. 10-6/2007-यू3(ए) के माध्यम से दो और कॉलेजों नामतः (i) प्रबन्धन अध्ययन कॉलेज एवं (ii) भेषज शिक्षा कॉलेज को सम-विश्वविद्यालय संस्थान के अधिकार क्षेत्र में शामिल किया गया था। भारत सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर दिनांक दिसम्बर 2008 की अधिसूचना संख्या एफ. 10-10/2008-यू3(ए) के माध्यम से सम-विश्वविद्यालय को अकादमिक सत्र 2009-10 से हैदराबाद के बाहरी छोर पर स्थित रुद्रराम गांव में एक बाह्य परिसर केन्द्र प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की थी। इसके बाद भारत सरकार ने यूजीसी की सलाह पर 27 सितम्बर 2012 की अधिसूचना सं. 10-3/2012-यू3(ए) के माध्यम से इस सम-विश्वविद्यालय को अकादमिक सत्र 2012-13 के नागादेनाहल्ली, डोडाबलापुर तालुक, बंगलौर, कर्नाटक में एक और बाह्य परिसर केन्द्र आरंभ करने की अनुमति प्रदान की थी।

3. और जबकि 'सम-विश्वविद्यालय ने 04 जून, 2015 में जीआईटीएएम आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान के नाम से येनदाडा, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश में एक बाह्य परिसर केन्द्र स्थापित करने संबंधी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

4. और जबकि, मंत्रालय द्वारा अपने दिनांक 24 जून, 2015 को पत्र संख्या 10-1/2015-यू3(ए) द्वारा यूजीसी (विश्वविद्यालयवत् संस्थान) विनियम, 2010 के प्रावधानों और 2014 तथा 2015 में किए गए संशोधनों के अनुसार परीक्षण के लिए यूजीसी को जीआईटीएएम सम-विश्वविद्यालय का प्रस्ताव अग्रेषित किया गया।

5. और जबकि, यूजीसी ने अपने दिनांक 29 जुलाई, 2015 के पत्र संख्या 10-2/2015 (सीपीपी-I/डीयू) द्वारा जीआईटीएएम विज्ञान और अनुसंधान चिकित्सा संस्थान के नाम से येनदाडा, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश में बाह्य परिसर में प्रारम्भ करने के लिए गांधी प्रौद्योगिकी और प्रबंध संस्थान, को अपनी सिफारिश सूचित की है, जो यूजीसी द्वारा 6 वर्षों के लिए द्विवार्षिक और उसके तत्पश्चात 5 वर्षों के बाद बाह्य परिसर केन्द्र की समीक्षा करने के अध्वधीन होगा।

6. और जबकि, यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों की मंत्रालय में जांच की गई और यह पाया गया कि यूजीसी (विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2010 के तहत कुछ निर्धारित शर्तों में से एक खण्ड 12.07 है जिसके द्वारा नए बाह्य परिसर केन्द्र/उपतटीय परिसर प्रारंभ करने के इच्छुक विश्वविद्यालयवत् संस्थानों को प्रस्तावित केन्द्र को प्रारम्भ करने की तारीख के कम-से-कम 6 माह पहले निर्धारित फार्मेट में भारत सरकार को आवेदन करना अनिवार्य बना दिया गया है, इस विश्वविद्यालयवत् संस्थान द्वारा पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया गया है।

7. और जबकि, चूंकि यूजीसी विशेषज्ञ समिति ने निरीक्षण, प्रबंधन के साथ विचार-विमर्श, संकाय, गैर-शिक्षण कर्मचारी और विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक विचार विमर्श और दस्तावेजों के सत्यापन के आधार पर यह सिफारिश की थी कि उपलब्ध सुविधाएं आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और प्रस्तावित बाह्य परिसर केन्द्र में उपलब्ध वास्तविक अवसरचना पर्याप्त है, मंत्रालय का यह विचार है कि येनदाडा, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में जीआईटीएएम आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के नाम से प्रस्तावित बाह्य परिसर केन्द्र को आवेदन को जमा करने की तारीख (जो 4 जून, 2015 थी) से 6 माह पूरे होने पर अर्थात् 3 दिसम्बर, 2015 से वैध माना जाए।

8. इसलिए, अब, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्वारा गांधी प्रौद्योगिकी एवं प्रबन्धन संस्थान (जीआईटीएएम)

सम—विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश को 3 दिसम्बर, 2015 से जीआईटीएम आयुर्विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के नाम से येनदाडा, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश में बाह्य परिसर केन्द्र प्रारम्भ करने के लिए अपना अनुमोदन प्रदान करती है, जो इसमें संलग्न शर्तों और शैक्षिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ यूजीसी (विश्वविद्यालयवत् संस्थान) विनियम, 2010 और 2014 और 2015 में इसके संशोधनों के तहत निर्धारित सामान्य निबंधन एवं शर्तों के अध्याधीन 6 वर्षों के लिए द्विवार्षिक और इसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष में यूजीसी द्वारा बाह्य परिसर केन्द्र की समीक्षा के अध्याधीन होगा।

9. उपर्युक्त पैरा 8 में की गई घोषणा इस अधिसूचना के पृष्ठांकन के क्रम संख्या 6 में उल्लिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन होगी।

प्रवीण कुमार
संयुक्त सचिव

सं. एफ. 12-12/2010-यू3(ए)—जबकि, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार ने यूजीसी की सलाह पर, अपने दिनांक 7 जून 2000, की अधिसूचना सं. 9-19/94-यू3 द्वारा बिहार योग भारती, मुंगेर, बिहार को उपर्युक्त अधिनियम के उद्देश्यार्थ विश्वविद्यालयवत् संस्था के रूप में घोषित किया था।

2. और जबकि, बिहार योग भारती, (सम—विश्वविद्यालय), मुंगेर बिहार ने अपने दिनांक 12 जून, 2008 के पत्र द्वारा यूजीसी से इस तथ्य के दृष्टिगत सम—विश्वविद्यालय दर्जा वापस लेने का अनुरोध किया था कि वह अपने इष्टतम प्रयासों के बावजूद यूजीसी और संबंधित सांविधिक निकायों के दिशा—निर्देशों/विनियमों के अनुसार सम—विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण किए जाने वाली बाध्यताओं और अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ था।

3. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 10.09.2008 को आयोजित अपनी 451वीं बैठक में बिहार योग भारती, (सम—विश्वविद्यालय), मुंगेर, बिहार के अनुरोध पर विचार किया और निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया :—

“आयोग ने बिहार योग भारती के सम—विश्वविद्यालय दर्जे को वापस लेने के अनुरोध पर विचार किया और मानव संसाधन विकास मंत्रालय को इसकी सिफारिश करने के लिए इस शर्त के अध्याधीन सहमत हुआ कि जो विद्यार्थी पहले से नामांकित हों वे अपना पाठ्यक्रम पूरा कर सकते हैं या संस्थान विद्यार्थियों की संतुष्टि के लिए वैकल्पिक प्रबंध करें”।

4. और जबकि, मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी ने बिहार योग भारती, (सम—विश्वविद्यालय), मुंगेर, बिहार के सम—विश्वविद्यालय दर्जे को वापस लेने की यूजीसी की उपर्युक्त सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और तदनुसार इसे अन—अधिसूचित करने का आदेश दिया है।

5. इसलिए, अब, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा यह घोषणा करती है कि दिनांक 7 जून, 2000, की अधिसूचना सं. 9-19/94-यू3 को जिसमें बिहार योग भारती, मुंगेर, बिहार को विश्वविद्यालयवत् संस्था घोषित किया था उसे विद्यार्थियों के अंतिम बैच के उत्तीर्ण होने की तारीख से समाप्त माना जाए। इसके अतिरिक्त, बिहार योग संस्थान के संस्थापक का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि वह उनके द्वारा नामांकित विद्यार्थियों के अंतिम बैच के हितों की रक्षा करें।

प्रवीण कुमार
संयुक्त सचिव

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर 2015

संकल्प

सं. ई-11013/4/2014—हिंदी—सोलहवीं लोक सभा का गठन हो जाने के परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने पोत परिवहन मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। समिति का गठन, कार्य और कार्यकाल आदि निम्न प्रकार होंगे :—

I. गठन

पोत परिवहन मंत्री

अध्यक्ष

पोत परिवहन राज्य मंत्री

उपाध्यक्ष

II. सरकारी सदस्य

1. सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय

सदस्य

2. सचिव, राजभाषा विभाग

सदस्य

3. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, पोत परिवहन मंत्रालय	सदस्य
4. अपर सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय	सदस्य
5. संयुक्त सचिव (प्रशा.), पोत परिवहन मंत्रालय	सदस्य
6. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
7. नौवहन महानिदेशालय, मुंबई	सदस्य
8. महानिदेशक दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, नोएडा	सदस्य
9. अध्यक्ष, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा	सदस्य
10. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, मुंबई	सदस्य
11. अध्यक्ष, जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास, मुंबई	सदस्य
12. अध्यक्ष, चेन्नई पत्तन न्यास, चेन्नई	सदस्य
13. अध्यक्ष, कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता	सदस्य
14. अध्यक्ष, मुरगांव पत्तन न्यास, मुरगांव	सदस्य
15. अध्यक्ष, नवमंगलूर पत्तन न्यास, मंगलूर	सदस्य
16. अध्यक्ष, कोचीन पत्तन न्यास, कोचीन	सदस्य
17. अध्यक्ष, मुंबई पत्तन न्यास, मुंबई	सदस्य
18. अध्यक्ष, कंडला पत्तन न्यास, कंडला	सदस्य
19. अध्यक्ष, वी. ओ. चिदम्बरनार पत्तन न्यास	सदस्य
20. अध्यक्ष, विशाखापट्टणम पत्तन न्यास	सदस्य
21. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	सदस्य
22. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया, विशाखापट्टणम	सदस्य
23. मुख्य अभियंता और प्रशासक, अंडमान लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य, पोर्ट ब्लेयर	सदस्य
24. सलाहकार, पोत परिवहन मंत्रालय	सदस्य सचिव
गैर सरकारी सदस्य : संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य	
25. श्री लालूभाई बाबूभाई पटेल	लोक सभा
26. श्री (एडवोकेट) नरेन्द्र केशव सवईकार	लोक सभा
27. श्रीमती नाजनीन फारुख	राज्य सभा
28. श्री अनिल माधव दवे	राज्य सभा
संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित	
29. श्री श्रीरंग अप्पा बारणे, संसद सदस्य (लोक सभा) 69 नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली स्थायी पता : श्री निवास, पदमजी पेपर मिल के नजदीक, थेरगांव, पुणे-33, महाराष्ट्र	लोक सभा
30. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी संसद सदस्य (राज्य सभा), एबी-92, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110011 स्थायी पता : तोरिया हाउस, छत्तरपुर, जिला-छत्तरपुर, मध्य प्रदेश	राज्य सभा

केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा नामित

31. श्री पंकज दीवान, 3/10, वेस्ट पटेल नगर,
नई दिल्ली-110008
मोबाइल नं. — 9891635077
कार्यालय पता :
श्री पंकज दीवान,
सहायक निदेशक (रा.भा)
संसदीय सिविल कार्य अंचल,
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग,
संसदीय ज्ञानपीठ भवन, नई दिल्ली
दूरभाष : 23034181

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा द्वारा नामित

32. प्रो. अनन्तराम त्रिपाठी, प्रधानमंत्री राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा
पो.—हिंदीनगर
वर्धा (महाराष्ट्र) 442003
टेलीफोन 07152-240745 (कार्यालय)
07152-240128 (निवास)
फैक्स : 07152-255718
मोबाइल : 9422140128

पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य

33. डॉ. वंदना श्रवणकुमार खुशलानी,
प्रधानाचार्य, दयानंद आर्य कन्या महाविद्यालय,
जरीपतका, नागपुर, 440014
दूरभाष : 0712-2642622, 9373282064
ईमेल : vskdakms@yahoo.com
34. अरुण जगन्नाथ कुलकर्णी,
8, परमानंद ले आउट, कोराडी स. कामठी
जिला-नागपुर, 441111
35. सरदार नवनीत सिंह तुली,
कार्पोरेट ऑफिस : प्लॉट नं.-2, समवेद संकुल,
एमएलए हॉस्टल के समीप, सिविल लाइन्स,
नागपुर-440001,
टेलीफोन : 0712-2546333, 2534999
36. राकेश शुक्ला
137, पॉकेट 5 मयूर विहार फेस 1,
दिल्ली-110091
फोन नं. 9871728516
ईमेल : rakeshshukla7@gmail.com

राजभाषा विभाग द्वारा नामित किए गए गैर-सरकारी सदस्य

37. डॉ. अजय कुमार,
322, एलवाल, एचडीएफसी बैंक के पास,
आजमगढ़-276001 (उत्तर प्रदेश),
दूरभाष : 05462-246510
मोबाइल नं. : 9415836698
38. श्री रमन कुमार,
सुपरटेक एज्यूरे, प्लैट नं. 2203, सैक्टर-34
नोएडा-201301
मोबाइल नं. : 9953434444

39. डॉ. विनय कुमार,
 क्वार्टर नं. 5ए, ए. पी. कॉलोनी,
 गया (बिहार)
 मोबाइल नं. : 9304002366 / 9334118186
 ईमेल : kumarrbinay@yahoo.com, guruji.bhardwaj@gmail.com

सदस्य

समिति के कार्य

यह समिति, केन्द्रीय हिंदी समिति और राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीतियों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, पोत परिवहन मंत्रालय के सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित मामलों में सलाह देगी।

कार्यकाल

इस समिति का कार्यकाल, सामान्य रूप से इसके गठन की तारीख से निम्नलिखित बातों के अधीन 3 वर्ष का होगा :—

- (क) जो संसद सदस्य, इस समिति के सदस्य हैं, वे संसद-सदस्य नहीं रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे;
- (ख) जो संसद सदस्य, संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य होने की हैसियत से इस समिति के सदस्य हैं, वे संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य नहीं रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे;
- (ग) इस समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक इस समिति के सदस्य रहेंगे; तथा
- (घ) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा किसी सदस्य द्वारा समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिए जाने के कारण कोई स्थान खाली हुआ, तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य, इस समिति के कार्यकाल की शेष अवधि तक ही सदस्य रहेगा।

यात्रा तथा अन्य भत्ते

इस समिति के गैर सरकारी सदस्यों को इस समिति की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11/20034/4/86-रा.भा. (क-2) में निहित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा-भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, लेकिन आवश्यक होने पर समिति की बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी आयोजित की जा सकती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, पोत परिवहन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन वेतन एवं लेखा कार्यालय तथा सभी नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों/सहकारी समिति/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त संगठनों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सी. बी. सिंह
 सलाहकार, पोत परिवहन मंत्रालय

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
 (दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 15 सितम्बर 2015

संकल्प

सं. ई-11012/08/2013-राजभाषा—गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 15 मार्च, 1988 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20015/45/87-रा.भा.(क-2) के अनुसरण में भारत सरकार ने दूरसंचार विभाग की पिछली हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल दिनांक 20.10.2013 को समाप्त होने तथा 16वीं लोकसभा के गठन के उपरांत दूरसंचार विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। समिति का गठन तथा उसके संकार्य निम्नानुसार होंगे :—

1. गठन

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

अध्यक्ष

2. गैर—सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित चार संसद सदस्य

1. डॉ.(श्री) कृष्ण प्रताप सिंह, सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा),
97, नार्थ एवेन्यु, नई दिल्ली—1
दूरभाष : 011.23094036

स्थायी पता :
59—डी, नखास,
जौनपुर (उत्तर प्रदेश)
दूरभाष : 05452—262241
मोबाइल : 09415273455
2. श्री पी करुणाकरन, सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा),
41, नार्थ एवेन्यु, नई दिल्ली—1
दूरभाष : 011.23094503
मोबाइल : 09868180357, 09847040081

स्थायी पता :
अमरावती हाउस, पोस्ट—निलेश्वरम,
जिला कासरगोड (केरल)
दूरभाष : 04672—280990
3. श्री आर. के. सिन्हा, सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा),
बंगला संख्या सी—1/22, हुमायु रोड,
नई दिल्ली।
दूरभाष : 011—49164400
मोबाइल : 09013181285

स्थायी पता :
अन्नपूर्णा भवन,
136, अन्नपूर्णा पथ, वैस्टर्न मैनुपुरा,
पुलिस स्टेशन—दीघा, पटना (बिहार)
पिनकोड : 800010
4. श्री राजीव शुक्ल, सदस्य
संसद सदस्य (राज्य सभा),
5, सफदरजंग रोड, नई दिल्ली
दूरभाष : 011—23792545, 23792575
मोबाइल : 9868181703, 9013181282

स्थायी पता :
119/501, दर्शन पुरवा,
कानपुर—208012
(उत्तर प्रदेश)
दूरभाष : 0512—2234080

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित दो संसद सदस्य

5. श्री ए. अनवर राजा, सदस्य
संसद सदस्य (लोक सभा),
नर्मदा फ्लैट्स, डॉ. बी.डी. मार्ग,
नई दिल्ली—110001
मोबाइल : 09487942786

स्थायी पता :

6/1000, एमजीआर, आईआईआईएम,
डाकघर—भारती नगर, कलेक्टरेट,
रामनाथपुरम—623503
(तमिलनाडु)

दूरभाष : 04567—231184, 232377

6. प्रो. राम गोपाल यादव,
संसद सदस्य (राज्य सभा),
8—ए, लोधी इस्टेट,
नई दिल्ली—110003

दूरभाष : 011—24643393, 24643394

मोबाइल : 9013181394

स्थायी पता :

ग्राम व पोस्ट—सैफई,
जिला—इटावा, उत्तर प्रदेश

दूरभाष : 05688—276666

मोबाइल : 09412284466

अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ द्वारा नामित प्रतिनिधि

7. प्रो. चन्द्रदेव कवडे,
(सचिव, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ,
प्रतिनिधि, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ,
सामुदायिक केन्द्र (दिल्ली नगर निगम),
द्वितीय तल, 10788—89, झंडेवालान,
नबी करीम, नई दिल्ली—110055

स्थायी पता :

10, विवेकानंद सोसायटी, तिलक नगर,
औरंगाबाद—431005 (महाराष्ट्र)

दूरभाष : 0240—2350255 (आवास)

मोबाइल : 09890302350

केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा नामित

8. श्री दर्शन सिंह,
ई.सी.—138,
माया एन्कलेव, जेल रोड,
हरि नगर, नई दिल्ली—64

दूरभाष : 011—25127999

मोबाइल : 9811882868, 9868894040

राजभाषा विभाग द्वारा नामित

9. डॉ. श्यामलेश कुमार तिवारी,
शिव मंदिर परिसर, सचिवालय कॉलोनी,
सेक्टर—बी, महानगर, लखनऊ—226006
मोबाइल : 9415303193

10. श्री नानक चन्द लखमानी,
569 क/12, स्नेह नगर, कृष्णा नगर,
आलमबाग, लखनऊ—226005
मोबाइल : 9450111180

11. श्रीमती कृष्णा शर्मा,
मकान नं. 34, द्वितीय तल, न्यू महावीर नगर,
आउटर रिंग रोड, विकासपुरी, नई दिल्ली—110018
मोबाइल : 9968936468

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

सदस्य

दूरसंचार विभाग द्वारा नामित

- | | |
|---|-------|
| 12. श्री हेमंत शर्मा,
जी-180, सेक्टर-44,
नोएडा, जिला-गौतम बुद्ध नगर
(उत्तर प्रदेश) | सदस्य |
| 13. श्री रामजी सिंह,
रेन्टल फ्लैट-44,
कंकड़बाग कॉलोनी, निकट पंच शिव मंदिर,
पटना-800020 | सदस्य |
| 14. श्री भोलानाथ,
लेन-4, बैंक कॉलोनी,
संत कैरंस स्कूल के निकट,
गोला रोड, बेली रोड,
पटना-801503
मोबाइल : 09431044800 | सदस्य |
| 15. डॉ. सदानन्दप्रसाद गुप्त,
मुख्य पोस्ट-जंगल सालिकराम,
गोरखपुर-273014
(उत्तर प्रदेश)
दूरभाष : 0551-2284114
मोबाइल : 09450878347 | सदस्य |

सरकारी सदस्य

राजभाषा विभाग

- | | |
|---|------------|
| 16. सचिव | सदस्य |
| 17. संयुक्त सचिव | सदस्य |
| दूरसंचार विभाग | |
| 18. सचिव, दूरसंचार | सदस्य |
| 19. सदस्य (सेवाएं) | सदस्य |
| 20. सदस्य (वित्त) | सदस्य |
| 21. सदस्य (प्रौद्योगिकी) | सदस्य |
| 22. अपर सचिव (दूरसंचार) | सदस्य |
| 23. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईटीआई, बेंगलूर | सदस्य |
| 24. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, टीसीआईएल, नई दिल्ली | सदस्य |
| 25. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारत संचार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली | सदस्य |
| 26. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड, नई दिल्ली | सदस्य |
| 27. अध्यक्ष, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली | सदस्य |
| 28. कार्यकारी निदेशक, सी-डॉट, नई दिल्ली | सदस्य |
| 29. वरिष्ठ उप महानिदेशक, टेलिकाम इंजीनियरिंग सेंटर, नई दिल्ली | सदस्य |
| 30. उपमहानिदेशक (समन्वय/प्रशासन)/संयुक्त सचिव (प्रशासन) | सदस्य-सचिव |

3. समिति का कार्य

इस समिति का कार्य भारत के संविधान में राजभाषा के संबंध में की गई व्यवस्था, राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, केन्द्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन तथा दूरसंचार विभाग और उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों, निगमों/उपक्रमों के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के बारे में सलाह देना है।

4. समिति का कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल इसके गठन की तारीख अर्थात् इस संकल्प के जारी होने की तारीख से तीन वर्ष तक रहेगा बर्षत कि :—

- (क) जो संसद सदस्य, समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य रहेंगे।
- (ग) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता से त्याग-पत्र देने के कारण स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष का कार्यकाल में से शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।
- (घ) विशेष परिस्थितियों में समिति का कार्यकाल घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

5. सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, तथापि, समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली से बारह किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

6. यात्रा तथा अन्य भत्ते

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 03 फरवरी, 2006 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20034/04/2005—रा.भा. (नीति-2) द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि चूंकि केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा गठित हिंदी सलाहकार समितियों में नामित 15 गैर-सरकारी सदस्यों में 06 संसद सदस्य होते हैं, अतः यात्रा/दैनिक भत्ता प्रावधान को अधिक स्पष्ट करते हुए निम्न प्रावधान किया जाता है :—

- (क) समिति में नामित सांसदों को “संसद सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) अधिनियम, 1954” के प्रावधानों एवं समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जाएगा।
- (ख) समिति में अन्य गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20034/04/86—रा.भा.(क-2) में निहित दिशा निर्देशों के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता देय होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, नीति आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक कार्यालय, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सुरेश चन्द्र शर्मा
उप महानिदेशक (सी. एण्ड ए.)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 31st August 2015

No.F.10-1/2015-U.3(A)—Whereas the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as a Deemed to be University;

2. And whereas, on the advice of the UGC, Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM), Rushikonda, Visakhapatnam, Andhra Pradesh was declared as an 'Institution Deemed to be University' initially consisting of two colleges viz (i) College of Engineering and (ii) College of Science for the purposes of the aforesaid act, vide this Ministry's notification No.F.9-37/2006-U3(A) dated 13.08.2007. Later on, two more colleges viz. (i) College of Management Studies and (ii) College of Pharmacy were brought under the ambit of Deemed to be University vide Notification No. F.10-6/2007-U3(A) dated 13.06.2008. The Government of India vide Notification No. F.10-10/2008-U3(A) dated December, 2008, allowed the Deemed to be University to start an off-campus centre from the academic year 2009-10 at Rudraram Village on the outskirts of Hyderabad, on the advice of UGC. Further, the Government of India vide its Notification No.10-3/2012/U3(A) dated 27th September, 2012, on the advice of UGC, also permitted the Deemed to be University to start another off-campus centre at Nagadenahalli, Dodaballapur Taluk, Bangalore, Karnataka from the academic year 2012-13;

3. And whereas, the Institution "Deemed to be University" submitted a proposal to Ministry of Human Resource Development on 4th June, 2015 for establishment of an off-campus centre at Yendada, Visakhapatnam, Andhra Pradesh in the name of GITAM Institute of Medical Sciences & Research;

4. And further whereas, the Ministry vide its letter No. F.10-1/2015/U3(A) dated 24th June, 2015 forwarded the proposal of GITAM Deemed to be University to UGC for examination in accordance with the provisions of UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010 and amendments in 2014 and 2015;

5. And whereas, the UGC vide its communication No.10-2/2015 (CPP-I/DU) dated 29.07.2015 conveyed its recommendation to Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM) to start an off-campus centre at Yendada, Visakhapatnam, Andhra Pradesh in the name of GITAM Institute of Medical Sciences & Research subject to review of the off-campus centre by the UGC biennially for six years and subsequently after five years;

6. And whereas, the report of UGC Expert Committee and its recommendations were examined in the Ministry and found that one of the conditions stipulated under Clause 12.07 of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010 whereby an Institution Deemed to be University intending to start a new off-campus centre / off-shore campus is made compulsory to apply to the Government of India in the prescribed format at least six months prior to the proposed dated of starting the centre, is not being fulfilled by the Deemed to be University;

7. And further whereas, since the UGC Expert Committee, based on an inspection, discussion with management, interaction with faculty, non-teaching staff and students and verification of documents, had recommended that the facilities available are in consonance with the requirements and the academic and physical infrastructure available at proposed off-campus centre are adequate, the Ministry is of the opinion that the proposed off-campus centre at Yendada, Visakhapatnam, Andhra Pradesh in the name of GITAM Institute of Medical Sciences & Research may be treated as valid from the completion of six months from the date of submission of the applications (which was on 4th June, 2015), i.e. from 3rd December, 2015;

8. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission (UGC), do hereby accord its approval to the Gandhi Institute of Technology and Management (GITAM) Deemed to be University, Visakhapatnam, Andhra Pradesh to start an off-campus centre at Yendada, Visakhapatnam, Andhra Pradesh in the name of GITAM Institute of Medical Sciences & Research with effect from 3rd December, 2015, for the purposes of the aforesaid Act for conduct of academic course/programmes and the conditions attached thereto, subject to review of the off-campus centre by the UGC biennially for six years and subsequently after every five year subject to usual terms and conditions as prescribed under the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2010 and its amendments in 2014 and 2015;

9. The declaration as made in Para 8 above is further subject to fulfillment of the conditions mentioned at Sr. No.6 of the endorsement to this notification;

PRAVEEN KUMAR
Joint Secretary

The 16th September 2015

No.F.12-12/2010-U.3(A)—Whereas, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act 1956, the Central Government vide its Notification No.9-19/94-U3 dated 7th June, 2000, on the advice of the UGC, declared Bihar Yoga Bharati, Munger, Bihar as institution Deemed to be University for the purposes of the aforesaid Act.

2. And whereas, Bihar Yoga Bharati (Deemed to be University), Munger, Bihar vide its letter dated 12th June, 2008 requested the UGC for withdrawal of Deemed to be University status in view of the fact that it was unable to meet the compliance of obligation and requirements to be followed by Deemed to be University as per the existing guidelines/regulations of UGC and statutory bodies concerned despite its consistent endeavours.

3. And whereas, UGC in its 451st meeting held on 10.09.2008 considered the request of Bihar Yoga Bharati (Deemed to be University), Munger, Bihar and resolved as under:

“The Commission considered the request of Bihar Yoga Bharati for withdrawal of Deemed to be University status and agreed to recommend the same to the Ministry of Human Resource Development subject to the condition that the students who are already enrolled may complete their course or the Institute may make alternate arrangement to the satisfaction of the students”.

4. And whereas, the Competent Authority of the Ministry has accepted the aforesaid recommendation of UGC for withdrawal of Deemed to be University status to Bihar Yoga Bharati, Munger, Bihar and accordingly ordered for de-notification.

5. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government hereby declares that the Notification No. 9-19/94-U3 dated 7th June, 2000 declaring Bihar Yoga Bharati, Munger, Bihar as an Institution Deemed to be University may be treated as withdrawn with effect from passing out of the last batch of admitted students. Further, it would be sole responsibility of the promoter of Bihar Yoga Institute to safeguard the interest of the last batch of students enrolled by them.

PRAVEEN KUMAR
Joint Secretary

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi-110001, the 17th September 2015

RESOLUTION

No. E.11013/4/2014-Hindi.—Consequent upon the constitution of the Sixteenth Lok Sabha, the Government of India has decided to reconstitute the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Shipping. The Composition, functions and tenure etc. of the committee will be as under:-

I. COMPOSITION

- | | |
|-----------------------------------|---------------|
| 1. Minister of Shipping | CHAIRMAN |
| 2. Minister of State for Shipping | VICE-CHAIRMAN |

OFFICIAL MEMBERS

- | | |
|---|--------|
| 1. Secretary, Ministry of Shipping | Member |
| 2. Secretary, Department of Official Language | Member |
| 3. Additional Secretary and Financial Adviser, Ministry of Shipping | Member |
| 4. Additional Secretary, Ministry of Shipping | Member |
| 5. Joint Secretary (Admn), Ministry of Shipping | Member |
| 6. Joint Secretary, Department of Official Language | Member |
| 7. Director General of Shipping, Mumbai | Member |

8.	Director General, Lighthouses and Lightships, Noida	Member
9.	Chairman, Inland Waterways Authority of India, Noida	Member
10.	Chairman and Managing Director, Shipping Corporation of India Ltd., Mumbai	Member
11.	Chairman, Jawaharlal Nehru Port Trust, Mumbai	Member
12.	Chairman, Chennai Port Trust, Chennai	Member
13.	Chairman, Kolkata Port Trust, Kolkata	Member
14.	Chairman, Mormugao Port Trust, Mormugao	Member
15.	Chairman, New Mangalore Port Trust, Mangalore	Member
16.	Chairman, Cochin Port Trust, Cochin	Member
17.	Chairman, Mumbai Port Trust, Mumbai	Member
18.	Chairman, Kandla Port Trust, Kandla	Member
19.	Chairman, V.O. Chidambaranar Port Trust	Member
20.	Chairman, Vishakhapatnam Port Trust	Member
21.	Chairman and Managing Director, Cochin Shipyard Ltd., Cochin	Member
22.	Chairman and Managing Director, Dredging Corporation of India, Vishakhapatnam	Member
23.	Chief Engineer and Administrator, Andaman Lakshadeep Harbour Works, Port Blair	Member
24.	Adviser, Ministry of Shipping	Member-Secretary

NON- OFFICIAL MEMBERS

MEMBERS OF PARLIAMENT

Nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs

25.	Shri Lalubhai Babubhai Patel	Lok Sabha
26.	Shri Narendra Keshav Sawaikar (Advocate)	Lok Sabha
27.	Smt. Naznin Faruque	Rajya Sabha
28.	Shri Anil Madhav Dave	Rajya Sabha

Nominated by the Committee of the Parliament on Official Language

29.	Shri Rangappa Barne, Sansad Sadasya (Lok Sabha), 69 North Avenue, New Delhi Permanent Address: Shri Nivas, Padamji near papermill, Thergaon, Pune-33 Maharashtra	Lok Sabha
30.	Shri Satyavrat Chaturvedi, Sansad Sadasya (Rajya Sabha), AB-92, Shahjahan Road, New Delhi 110011 Permanent Address: Toriya House, Chattarpur District- Chattarpur, Madhya Pradesh Nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad	Rajya Sabha
31.	Shri Pankaj Deewan, 3/10, West Patel Nagar, New Delhi-110008 Mobile No. 9891635077 Official Address: Assistant Director (O.L.), Sansdiya Civil Works Zone, CPWD, Sansdiya Gyanpeeth Bhavan, New Delhi Telephone No. 23034181 Nominated by Rashtrabhasha Prachar Samiti, Vardha	Member

32. Pro. Anantram Tripathi, Pradhanmatri, Rastrabhasha Prachar Samiti, Vardha Member
Po. Hindinagar, Vardha (Maharashtra) 442 003, Official Telephone No. 07152-240745, Residential 07152-240128, Mobile 09422140128

Non-Official Members Nominated by the Ministry of Shipping

33. Dr. Vandana Shrawankumar Khushalani, Member
Principal, Dayanand Arya Kanya Mahavidyalaya, Jaripatka, Nagpur-440014
Telephone No: 0712-2642622, 9373282064
email id : vskdakms@yahoo.com
34. Shri Arun Jagannath Kulkarni, Member
8 Parmanand Layout Korari Kamethi, Nagpur 441111
35. Sardar Navneet Singh Tuli, Member
Plot No.2, Samved Sankul, Near MLA Hostel, Civil Lines, Nagpur-440001
Telephone No. 0712-2546333, 2534999
36. Rakesh Shukla, Member
137, Pocket 5,
Mayur Vihar Phase-I, Delhi 110091
Telephone No. 9871728516
email id: rakeshshukla7@gmail.com

Non-Official Members to be Nominated by the Department of Official Language

37. Dr. Ajay Kumar Member
322, Ailwalj Near HDFC Bank, Azamgarh, 276001
Tel- 05462-246510
Mob- 9415836698
Email- ajai_azh@rediff.com, ajaikumar.azh@gmail.com
38. Sh. Raman Kumar Member
Supertake Azuere, Flat No.-2203,
Sector-34, Noida-201301
Mob-9953434444
39. Dr. Vinay Kumar Member
Quarter No. 5A
A.P.Colony, Gaya-823001 (Bihar)
Mob 9304002366/9334118186
Email-kumarrbinay@yahoo.com, guruji.bhardwaj@gmail.com

Functions of the Committee

The Samiti will advise on the matters relating to the progressive use of Hindi in Official Work of the Ministry of Shipping, in accordance with the policies laid down by the Kendriya Hindi Samiti and the guidelines issued by the Department of Official Language in this regard from time to time.

Tenure

The Tenure of the Samiti will ordinarily be three years from the date of its constitution provided that:-

- The Members of the Parliament who are the members of the Samiti shall cease to be the members of the samiti as soon as they cease to be the Members of Parliament.
- The Members of Parliament who are the members of the Samiti by virtue of their being members of the Committee of the Parliament on Official Language shall cease to be the members of the samiti as soon as they cease to be the Members of the Committee of the Parliament on Official Language;
- Ex-officio members of the Samiti shall continue to be the Members of the Samiti as long as they hold the office by virtue of which they are the members of the Samiti; and
- if any vacancy arises in the Samiti owing to the death of a member or owing to tendering of resignation by a member, the member so appointed against that vacancy shall hold office for the residual term of the Samiti.

C.B. SINGH
Advisor, Ministry of Shipping

2. Shri P.Karunakaran,
MP (Lok Sabha),
41, North Avenue, New Delhi-1
Tele: 011-23094503
Mobile: 09868180357, 09847040081
Permanent Address:
Amaravathi House, Post-Nileswaram
District: Kasaragod (Kerala)
Tele:04672-280990

3. Shri R.K. Sinha, Member
MP (Rajya Sabha),
Bungalow No. C-1/22, Humayun Road,
New Delhi
Tele: 011-49164400
Mobile: 09013181285
Permanent Address:
Annapurna Bhavan,
136, Annapurna Path, Western Mainpura,
Police Station-Digha,
Patna-800010
(Bihar)
4. Shri Rajeev Shukla,
MP (Rajya Sabha),
5, Safdarjung Road, New Delhi.
Tele: 011-23792545, 23792575
Mobile: 9868181703, 9013181282
Permanent Address:
119/501, Darshan Purwa,
Kanpur-208012
(Uttar Pradesh)
Tele: 0512-2234080
Nominated by the Committee of Parliament on Official Language
5. Shri A. Anwar Raja, Member
M.P. (Lok Sabha),
Narmada Flats, Dr.B.D.Marg,
New Delhi-110 001
Mobile: 09487942786
Permanent Address:
6/1000, MGR, IIIAM,
Post: Bharati Nagar, Collectorate,
Ramanathpuram-623503
(Tamilnadu)
Tele:04567-231184, 232377
6. Prof. Ram Gopal Yadav, Member
M.P.(Rajya Sabha)
8-A, Lodhi Estates,
New Delhi-110 003
Tele: 011-24643393, 24643394
Mobile: 9013181394
Permanent Address:
VPO:- Safai,
District:-Etawah (Uttar Pradesh)
Tele: 05688-276666
Mobile: 09412284466
Nominated by Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh
7. Prof. Chandradev Kawade, Member
(Sachiv, Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh),
Representative, Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh,
Community Centre (MCD), IInd Floor,
10788-89, Jandewalan, Nabi Karim,
New Delhi-110 055

Permanent Address:

10-Vivakanand Society,
Tilak Nagar,
Aurangabad -431005
(Maharashtra)
Tele: 0240-2350255 (Residence)
Mobile: 09890302350

Nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad

- | | | |
|----|--|--------|
| 8. | Shri Darshan Singh,
E.C.-138, Maya Enclave,
Jail Road, Hari Nagar,
New Delhi-64
Tele: 011-25127999 (Residence)
Mobile: 9811882868, 9868894040 | Member |
|----|--|--------|

Nominated by the Department of Official Language

- | | | |
|-----|---|--------|
| 9. | Dr. Shyamlesh Kumar Tiwari,
Shiv Mandir Parisar, Sachivalaya Colony,
Sector- B, Mahanagar, Lucknow-226006
(Uttar Pradesh)
Mobile : 9415303193 | Member |
| 10. | Shri Nanak Chand Lakhmani,
569 A/12, Sneha Nagar, Krishna Nagar,
Alambagh, Lucknow-226005
(Uttar Pradesh)
Mobile : 9450111180 | Member |
| 11. | Smt. Krishna Sharma,
House No. 34, IInd Floor, New Mahavir Nagar,
Outer Ring Road, Vikaspuri, New Delhi-110018
Mobile : 9968936468 | Member |

Nominated by the Department of Telecommunications

- | | | |
|-----|--|--------|
| 12. | Shri Hemant Sharma,
G-180, Sector-44
NOIDA
(Uttar Pradesh) | Member |
| 13. | Shri Ramji Singh,
Rental Flat-44, Kankarbagh Colony,
Near Panch Shiv Mandir,
Patna-800 020 | Member |
| 1 | 14. Shri Bholanath,
Lane-4, Bank Colony,
Near St. Cairans School,
Gola Road, Bailey Road,
Patna-801 503
Mobile: 09431044800 | Member |
| 15. | Dr. Sadanandprasad Gupta,
Main P.O.: Jungle Salikram,
Gorakhpur-273014
(Uttar Pradesh)
Tele: 0551-2284114
Mobile: 09450878347 | Member |

Official Members

Department of Official Language	
16. Secretary	Member
17. Joint Secretary	Member
Department of Telecommunications	
18. Secretary (Telecom)	Member
19. Member (Services)	Member
20. Member (Finance)	Member
21. Member (Technology)	Member
22. Additional Secretary (Telecom)	Member
23. Chairman & Managing Director, I.T.I., Bangalore	Member
24. Chairman & Managing Director, T.C.I.L., New Delhi	Member
25. Chairman & Managing Director, B.S.N.L., New Delhi	Member
26. Chairman & Managing Director, M.T.N.L., New Delhi	Member
27. Chairman, Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), New Delhi	Member
28. Executive Director, C-DoT, New Delhi	Member
29. Senior DDG, Telecom Engineering Centre, New Delhi	Member
30. DDG (C&A)/JS(A)	Member-Secretary

III. FUNCTIONS OF THE SAMITI

Functions of the Samiti will be to render advice to the Government in regard to the implementation of the provisions relating to official language contained in the Constitution, Official Languages Act and Rules framed there under, decisions of the Kendriya Hindi Samiti, implementation of the instructions issued by the Department of Official Language and give advice to progressive use of Hindi in the Department of Telecommunications and its attached, subordinate, corporate offices/undertakings.

IV. TENURE OF THE SAMITI

The tenure of the Samiti shall be three years from the date of its constitution i.e. from the date of issue of this resolution, provided that:-

- a) A member, who is Member of Parliament, ceases to be member of the Samiti as soon as he/she ceases to a Member of Parliament.
- b) Ex-officio Members of the Samiti shall continue as members as long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti.
- c) If a vacancy arises in the samiti due to resignation or death of a Member, the Member appointed in that capacity shall hold the office for residual term.
- d) Under special circumstances, the tenure of the Samiti may be curtailed or extended.

V. GENERAL

Headquarter of the Samiti will be in New Delhi, but samiti can convene its meetings at any other place, other than Delhi, if necessary.

VI. TRAVELLING AND OTHER ALLOWANCES

The Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, vide their O.M. No. II/20034/04/2005-OL(Policy-2) dated 3rd February, 2006 has stated that as the 15 non-official members include 06 Members of Parliament, nominated in the Hindi Salahakar Samiti, constituted by the Central Ministries/Departments, so the provision regarding travelling/daily allowance is made more elaborate in the following manner:-

- (a) The Members of Parliament nominated in the Samiti will be paid travelling/daily allowance as per the provisions in the “Members of Parliament (Salary, Allowance and Pension) Act, 1954”, amended from time to time and rules made there under.
- (b) Travelling/daily allowance to other non-official Members of the Samiti will be paid as per the guidelines contained in the Department of Official Language’s O.M. No. II/20034/04/86-OL (A-2) dated 22nd January, 1987 and in accordance with the prescribed rates and rules as amended from time to time by the Government of India.

ORDER

Ordered that a copy of this resolution be communicated to all members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, all Ministries and Departments of the Government of India, President’s Secretariat, Vice President’s Secretariat, Prime Minister’s Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, NITI Aayog, Comptroller and Auditor General of India, Accountant General, Central Revenue, Election Commission and Union Public Service Commission.

It is also ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information

SURESH CHANDRA SHARMA
DDG (C.& A.)